

रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया

रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।

रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की नगरिया॥

मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानु रे।

राम तेरे दर्शन के कारण वैन में जीवन पालूं रे॥

चरणकमल से निर्मल करदो दासी की झोपड़िया॥

रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन के लाऊंगी।

अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी॥

मीठे मीठे बेरन की मैं भर लाई छबरिया॥

श्याम सलोनी मोहिनी मूरत नैयन बीच बसाऊंगी।

पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी॥

अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया॥

नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अबला इक नारी हूँ।

दर्शन बिन दोऊ नैना तरसैं सुनलो बहुत दुखारी हूँ॥

हीरा रूप से दर्शन देदो डालो एक नजरिया॥

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/674/title/raama-raama-ratte-ratte-beeti-re-umariya-raghukul-nandan-kab-aaoge-bhilni-ki-nagariya>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |